

Office of the Principal, Govt. College Chamba, Distt. Chamba (H.P.)

Emails: principalgcchamba@gmail.com Phone/Fax: 01899-222207

Dated: 26th December, 2019

Report of "National Mathematics Day"

राजकीय महाविद्यालय चम्बा में गणित विभाग के गणितीय सोसाइटी के तत्वावधान में "राष्ट्रीय गणित दिवस 2019" के उपलक्ष पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया। ज्ञात रहे राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल 22 दिसंबर महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। परन्तु 22 दिसंबर रविवार होने की वजह से कार्यक्रम का आयोजन सोमवार व मंगलवार को किया गया। इस अवसर पर "गणित का इतिहास व गणित का उदगम" विषय पर भाषण, प्रश्नोत्तरी व गणित ऑलम्पियाड प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सोमवार 23 दिसंबर गणित ओलम्पियाड का आयोजन महाविद्यालय के सभागार में किया गया जिसमें महाविद्यालय के 150 विद्यार्थियों से भाग लिया। इसके पश्चात 24 दिसम्बर (मंगलवार) को प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता व भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में भी शिक्षार्थियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया।

भाषण में 15 प्रतिभागियों तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 10 टीमों ने भाग लिया। इस अवसर पर महाविद्यालय के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ शिव दयाल जी मुख्यातिथि के रूप में उपस्थित रहे। सर्वप्रथम वन्दे मातरम के द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया। तदोपरांत डॉ शिव दयाल जी द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। इसके बाद भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें प्रतिभागियों ने गणित का इतिहास, इसका उदगम तथा अन्य विषयों पर अपने अपने विचार भाषण के माध्यम से रखे। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा गीत, नृत्य, मिमिक्री तथा हास्य-व्यंग द्वारा सब का मनोरंजन भी किया।

इसके बाद गणित विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ ज्योतिन्द्रा ठाकुर तथा सहायक प्रोफेसर डॉ तेज सिंह के नेतृत्व व मार्गदर्शन में प्रश्नोत्तरी

प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें 10 टीमों ने 5 चरणों में आपस में प्रतिस्पर्धा की ।

डॉ शिव दयाल जी ने अपने सम्बोधन में कहा कि इस तरह की सह-शैक्षणिक गतिविधियां विद्यार्थियों के सर्वांगीण एवम समग्र विकास में सहायक होती हैं । उन्होंने भारत की समृद्ध संस्कृति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा भारतीय वैज्ञानिकों, गणितज्ञों का विश्व स्तर पर योगदान सम्बन्धित विषयों पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जागृति व आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा शुरू होती है । उन्होंने इस बेहतरीन आयोजन के लिए गणित विभाग की खूब सराहना की ।

प्रतियोगिताओं में डॉ हेमन्त पाल, डॉ मनेश वर्मा, डॉ चमन सिंह, डॉ शेल्ली महाजन, डॉ तेज सिंह, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह ने निर्णायक की भूमिका निभाई । निर्णायकों के अंतिम निर्णय के अनुसार गणित ऑलम्पियाड प्रतियोगिता में अमन कुमार- प्रथम, अंकित -द्वितीय, अमित व आशुतोष कुमार- तृतीय : भाषण प्रतियोगिता में : अमित कुमार- प्रथम, सिद्धान्त शर्मा-द्वितीय ,पूनम कुमारी तृतीय ;प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में दिव्यांशी राठौर और खुशबू विज - प्रथम, दिनेश और हरीश - द्वितीय, प्रवीण और लेख राज - तृतीय रहे । विजेताओं को प्राचार्य द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया ।

इस अवसर पर डॉ हेमन्त पाल, डॉ मनेश वर्मा, डॉ चमन सिंह, डॉ शेल्ली महाजन, डॉ तेज सिंह, प्रोफेसर वीरेन्द्र, प्रोफेसर सुमित, प्रोफेसर अविनाश, डॉ उज्ज्वल कटोच, प्रोफेसर रघुवीर सिंह, डॉ अजय जम्वाल, डॉ परिणीता, डॉ विदुषी शर्मा, डॉ जितेंद्र ठाकुर, डॉ आशीष कुमार, प्रोफेसर सुनील कुमार इत्यादि उपस्थित रहे ।



Prize Winners with Chief Guest & Staff




Prize Distribution



Prize Distribution

August gathering during the function


Declamation Competition



QUIZ Competition



POSTER on Mathematics



Dr. Jyotindera Thakur / Dr. Tej Singh
Department of Mathematics
Government College Chamba

Principal
Govt. College Chamba,
District Chamba (H.P.)